

ला
केश
कार
तारा
५

सलकशाकार
तारा ४ :
००००



गजदंता
केश
क




तारा ३ : ०००

वृश्चिका
तारा २२

००००००००००
५ तार्श्व

नेत्रकशाकारः
तारा ४ : ००००



हरकेशकारः
तारा ४ : ००००



बिषम
तारा ३ :
०००

कारे
तारा
३ : ०००


नक्षत्रः

॥ अत्रण प्र
कावडाकशाका
तारा ३ : ०००


धनदा प्र
कुनीशाका
रता रा ५ :
००००



शाल प्र
बाघशाफल
नकार तारा



द्वानशाका
र तारा :



नावान
तारा ३

००० ००००० ००००००००००

१३ चित्प्रान्हेचित्तरूपकरेतिहांकुंबनिहोलाल करेतिहांकुंबनि
 वदतजिस्तेवेनी
 दंतसंविमोकला वांकांजांवाहोवरहे
 रदतेमोकला १४ वि
 नवाकरांहीलाल
 हियमऊये
 मीजीपेडुकि
 हाथप १५ क
 नजरप्रान्हेनिकल्पहीलाल नथप
 यलप जि
 तिहावे
 १६ आचारजकंपारभिलीबोलाविथाहोलाल निजीप
 अविश्रावोबुहारयधरोवांपणांहीलाल पथाप
 दिसोसंवररुयधएसोहामणाहोलाल यणाप क्रीदा



युक्तमा ७० गीता प्रथम. १०८० के. १०००
नृपति. ७० गीता प्रथम. १०८० के. १०००
वैश्यागण्ड्य १००० के. १०००
नृपति. ७० गीता प्रथम. १०८० के. १०००
अगम. १००० के. १०००
गुरु. १००० के. १०००
दीन. १००० के. १०००
नि. १००० के. १०००
१००० के. १०००
सर्वत. १००० के. १०००
एता. १००० के. १०००
भाग. १००० के. १०००

याद
१४३

रीआंगणेहोलात घरोघरीआंगणेहोलात सधलेमेनीमाळइविण
एजणेहोलात वीणरणजणेहोलात ४ गाइचारंगोवालीयाचोणवज
वताहोलात विणवजावताहोलात रजकुवरविवाहमनोरथनावताहो
लात मनोरथसावताहोलात श्रुतांभुकमिध्रमीलिइंबकुकरसणीहोला
ता मिळइंबकुकरसणीहोलात सोमैदोणवजावणकुंसइंधणीहोला
कुसहिइंधणीहोलात ५ तेहनगरमांहेएदुवुंकोतीकथइरत्तुहोलात को
तिकथइरत्तुहोलात शीतंबणेतेघातनजाइरणकत्तुहोलात नजा
इरणकत्तुहोलात सुणिकुंअरतेदातद्विरिजेघाणहोलात दिइरी
ज्योघणेहोलात सारझुवाहेतेइसारदीइंबध्रंभणहोलात ६ आंभोनी
जआवासीकुंअरभनचितवेहोलात कुंअरभनचितवे नयनरकुं
तेइरतोकीभजोसांदिवेहोलात किभजोसांदिवे देतदिक्षतायांभ
तोभाणसरुअणहोलात भाणसरुअण करिकोतिकजातजुइंभुयण
होलात मुइंसुयण ७ सीधचकमुंअरदमनोरथयुरस्पेहोलात मनोर
थयुरसे एहिजमुंअरआधारविघनसवीचुरस्पेहोलात विघनसविचुर

दि

४३

दलहेहोलाल ७४ इंदतणंरूपनोगेवेरे तिहांकुंअरश्रीपालरे च० मयणंविधि
परवसोहोलाल श्रीजेखंनेंद्रमकहीरे विनयेचोथादालरे च० सिद्धकप्रदिम
फल्योहोलाल ७५ इहा एकदिनरयवादीचटपो रमवाकुंअरश्रीपाल साथ।
तिहांवक्तुतस्यो दीवोक्रुद्विज्ञाल ७६ सार्थवाहलेइनेटणं आवाकुंअर
पाय तवतेहेनेंप्रवेइस्युं कुंअरकरीरूपसाय ७७ कुंअरदेशथीआवीया किहां
जावाउमनाव सार्थवाहतववीनेवं करजोदीसदभाव ७८ आवाकांतीनयर
थी कंबूदीवनेदेस कुंअरकहेकोइकहे अवरिजदीहविसेस ७९ तेहकहे
अवरिजकणो नयरएकअनिरांम कोसइहांथीआरसें कुंअरतपूरतसनांम
८० मकरकेअराजाहिहां कपूरंतिलकांकंत दोइउवउपरिथइ
वंत दर नपेतेगुणकंदरी रूपेंरंनसमान जगमांजसउपमनही चोंस
लानिधंन दर रागरागिणीरूपसर तालतंतवित्तान

रक शिआठेकोन छत्र ग्रास्त्रसनापित्तकाव्यरस वीणानादवीनेर चतुरभिलेजेवा
उरने तोउपजेपरमोद दध नहरोगाच्यतर्लेगलद्रं षटकेजेप्रकुक्कठ प्रूरषसिरसिगो ५१
वनी पारहियमेहठ दध जोसुठोगुणवंतने तोदेजेडयपोवि देवनदेजेएकठं साथ ५२
गमारांगोठि दध रसीआस्युंवासोनही तोरसीयाइकाल जूरीनेंजंषरकद्रं जिप्र
वीबनीतरुमाल दध उक्तियुक्तिसमजेनहं सूर्जेनहंजिववोज इतउत्तजोवेजंगली
जाण्णद्रंआव्युरोज दध रोजतणंमनरीजवी नसकेकोईसुजाण नदीमांहिनिसि
दिनवसे पच्चलेनहीपाषाण दधे मरमनजाणंमांहिलो चित्रनहीएकठार जिहां
तिहांमाफंघालतो करेंहरायुंदोर एठे वलीचतुरांस्युंबोलीद्रं चित्तइकटाइकवा
र तेसहेलीसंसारमां अवरकाजअवतार एर रसीयानेरसीयामित्यं केलवतांमुंण
गोठि हिबेनमांरीजिरस कहिणीनावेहोठि एर परीष्यापाषेपरणतां कंबमल
इंनरतार जाइंजमारोऊरतां किस्युंकरेकिरतार एत्र तिलिकारणतेऊंअरी क

जगद्विप्रचक्ररे च० सावेङ्कटनसाहीठरेलाज ह्र विद्याधरशुभीकहरे सधजोतसा
वरततरे च० विद्याधरमुनीवरकस्योहोलाल पापीसेठेनापीठरे सायरमोच्यप्रकंतरे च
वषतेञ्जाजअमेलस्योहोलाल ह्र तेसुंणतांजवठलष्येरे तवहरष्योपनिराथरे
च० पुत्रसगीनगनीतणोहोलाल अविआवारीतकीकंहंठरे पणिआच्युंसविवा
थरे च० जोजनमोहिंधीटल्युंहोलाल ह्र नरपतिश्लेधुंवनरे कहोएकिस्योविचार
रे च० तवतेवेलेंकांपताहोलाल सेठेअमेविगोईअरे जोनेअथपुवाररे च० क
कपटप्रकेलसुंहोलाल ह्र तवराजारीसेंवट्येरे बोधाअणव्येसेठरे च० मुंव
तहणवाधस्योहोलाल तवकुंअरआमेवलीरे बोधाव्येतेसेठरे च० उत्तमनरप्रजा
णइंहोलाल ह्र निमीतीनवबोलीठरे साचंपुजनिमित्तरे च० एवज्जमातगनो
णीहोलाल मातंगकहीइहाथीयारे तेहकंप्रकवमवित्तरे च एराजेसरराजीउहो
लाल ह्र७ निमित्तीयानेनृपदीइरे हांनअनेवज्जर्मानरे च० विद्यानिधिजागपांवमो
लाल कुंअरदिनरिआवीयारे करतानवपदध्मानरे ह्र प्रयणं वी

जीहो जाल प्ररश्रवनीपरेंरे पाले मननिप्रीतरे च पासंराषेसेठनेहोला
ल तेमनथीचंमंनहीरे हरजननीकुलरीतिरे ~~इं~~ जेजेहवेल्लेहवोहोला ल इ
~~च~~ विंइहाथमंडंयग्यारे काजएकोनसिधरे च० सेठईस्युंमनिचिंतवेहोला ल
पीनसक्युंहोलीसक्युंरे एहवोनिश्चयकीधरे ~~इं~~ एहेनेनिजहाथेहणंहोला
ल ए० कुंअरपोह्योठेजिहारे सातमीचूइंअपासे च० लेईकटारीतिहांच
० टो टयोहोला ल पालपवीहेवोपत्यारे आवीपोहतोमापरे च० प्ररीनरकेंगउसात्तमी
होला ल ७२ लोकप्रनोतेतिहांमिल्यारे बोलेधिप्रवांगारे च० सामीडोहजोएथ
उहोला ल जेहकुंअरनीचीतव्युंरे आपलह्कंनिरवाणारे च० उग्रपायत्ररतज
फलेहोला ल ७२ मृतकारजलेहनांकरेंरे कुंअरमनधिभिसोगरे च मंणतेहना
संभारतोहोला ल सोवनघणंइतपावीइंरे अगनितणेंसंयोगरे च० तोहिरंगन
पालटेहोला ल ७३ मालपांचसेवाहणनारे सवीसंभालीलीधरे च० लषमीकंले
धुंनहीहोला ल मित्रधिणिजेसेवनारे तेअधिकारीकीधरे ~~इं~~ मंणनीधीउत्तमय

१
 २ एककहेनाणेजेरे च० एवमदिनउंमेकिहंरद्व्याहोलाल एककाकीएककृद्वयरी
 ३ द्यामंघणंहेजेरे च० वाटिजेतांताहरीहोलाल ५० मुंबकहेनररायनेरे ७२प्र
 ४ कुलआधारेरे च० रीसावीवाव्योहतोहोलाल उन्हपसांजेजोययोरे सविमाहोप
 ५ रिदारेरे च० चाणंडःखवियोगनांहोलाल ५२ राजामनविदिंदसुरे संणीतेहनीवा
 ६ चरे च० वातघणंविस्दृष्टहोलाल एकठंवसविहहुरे दीसेंपरतय्यसाचरे च०
 ७ धिगमुजवंशवलीतालीवंहोलाल ५३ निमीत्तीउतिनावीउरे भेंडुजववनविसासरे च०
 ८ पुचीदींधीएहेनेहोलाल किममातंगकद्वोकेनहीरे तेंदीधेंगलेपासरे च० निमीत्तीउ
 ९ वलशंकहेहोलाल ५३ मुजनीमीत्तजहंनहीरे संणज्योसाचीवातरे च० एवज्जमातं
 १० गनीधणीहोलाल रायअरथसमजेनहीरे कोप्येवितेंथंतेरे च० कुंअरनिमीत्तीयाउ
 ११ परेंहोलाल ५४ तेविंजनेंमारवारे रायेंकीधविवाररे च० कूनठंघणतिहांसजकीया
 १२ होलाल ५४ नमंजरीसेसंणारे आचीतिहांतेवाररे च० रायनेंइंणीपेरेंवीनवेहोलाल

५५ काजविचारीकीजीयेंरे जिमनहोयेंउपहासरे च० जमंगमांजसलहिंद्र्यणोहोला।
ल आचारेंकुलजांणींरे जोद्र्येंहियेविमासरे च० त्वलकन्निनथाद्र्येहोला ५६
कुंअरतेनरपतिकहेरे प्रगटकहोनिजवंशरे च० जिमसांसोपूरोदनेंहोला कहे
कुंअरकिप्रउच्चरेरे उत्तमनिजपरसंसरे च० कांमेंकुलउलषावस्युंहोला ५७
सैन्यउंमासंसजकरोरे शुक्रकरद्योंतरवाररे च० तवशुक्रकुलपरगटथस्येहोला
ल माथंमुंनवीषेरे पुबेनष्यत्रवाररे च० एउषांणेसाचव्योहोला ५८ अथवा
प्रवहणमांहिंवेरे दोपरणीशुक्रनारिरे च० तेनीपुबोतेहनेंहोला तेकहिस्पेंसवि
माहरोरे फलथकीअधीकाररे च० इणीपरिंकीजेपारभुंहोला ५९ तेहनेंतेनवा
मोकल्परे रायेनिजपरधंनरे च० तेजइनेंतिहांविनवेंहोला ६० तवप्रयणोमनह
रषीयारे पांमीआदरमानरे च० सहीकंतेबोलावीयोहोला ६१ वेसीरयणसरवा
सनेरे आव्योरायहजररे च० ऋपतिमनहरघोघणंहोला नयणेंतेहनिहालतारे

चरिजहोय ३५ ब्रह्मज्ञोष्ठतोजागवी धरिआंएयोनजीनांति परणाव्योनिजकुञ्चरी
नृपश्रीवाचनजाति ३६ सेठसंणीरिजोघणं वित्तमांहिकरेंविचार एहनेकठेपाप
वा नकंदेवाफंवार ३७ देईकलंककूजातिकं पाहुंएहनीलाज राजाहणस्यंएह
ने सहजेसरस्यंकाज ३८ जोपिणजेजेमैकस्यांएहनिंडुपनांहेत तेतेसविनिःफल
आ फजअनिजाषसमेत ३९ तोपिणवाजित्तआवीइं प्रनकरियेंअनुकूल उद्यम
थीसविसंपजे उद्यमसुषतुंमूल ४० क्यरीनेवाध्सेघणं एमुजषणस्यंकंदप्रथम
हणवाएहने कोइककरवोफंद धरं इमधितवतोत्तेगयो उत्तारेंआवास पलकएव
तसजकनही मुखमुंकेनीसास धर हाल आषाढचूतअणगारनेरे एदेशी इणिव
वसरितिहांमुंबनेरे आठ्ठुंटीलुंएकरे चउरनर उभाउंलगदीकरेंहोलाल, लेदीम
नरमुंबनेरे सेवकहेंअदिवेकरे चउर काजअमासंएककरेहोलाल धर एहजम
ईरायनारे तेहनेंअमेकहोमुंबनेरे चो लाषसोवनउंमआपसंहोलाल धरनेंददगे

लारे सधकंमलीऊंढंबरे च० अैपादघलोअमेमानसं होलाल ४४ पुंबकहेसा
लारे करसांखप्रकांभरे च० मुजशहमोरामानज्यो होलाल चउ केलवस्फंऊमीव
रे रायतणंदरबाररे च० स्यानासीदेज्यायवं होलाल ४५ पुंबमिलीसवितेगया
अपाररे च० मांगोकांइंमुखइंमकहे होलाल रागआलायंटेकसुरे रीजोराय
धारीदांनरे च० मोहतअमेवांबुघणं होलाल ४६ पुंबकहेअमदीजीइरे मोहतव
अैरोवतसेवांनरे च० तेहुंमोहतवधरवा होलाल तवनरप्रतिकंअरकनेरे देवरावंत
अैसांनरे च० हसतवदनजोतोहसी होलाल ४७ पांनदेवाजवआ
अैसांनरे च० सत्रआजनेथोचले होलाल वनोपुंबवलगांभिलेग
अैसांनरे च० वेंनेटसां होलाल ४८ एहवेआवीपुंब
अैसांनरे च० जेला ४९ एककहेफजमाजले

शुभं २ विष्णुपुत्रस्यसुभं ३ तत्र कुमीतलेऽप्यं ४ तत्र श्यास्यं ५ जी ६ १५ इम
कः तीव्रकेशरी ७ तपतीयाऽकाशं ८ मयलदेवसंवरवभ्यं ९ योदातांनिजः
काशं १० जी १६ तवतुतपातसंवदत्यां ११ त्राहणावाभ्याऽकाशं १२ चिंताभागीसर्वनी
१३ वायावायस्यवायं जी १७ १४ शिवविणिकहेसेहने १५ तीतीवरतष्यवानरे तो
श्यामित्रअधर्मथार पाष्पातजीघानं १६ जी १८ तत्रांरुचीतश्रीः कादीपुंकासा
१९ तरे परलक्ष्मीपरजोरं २० तदेप्रपदस्याग्यातरे जी १९ २१ गणेशरुधीतनुदरे
विन्ननश्रासुंदायं २२ तद्विक्रपूरइतासीइरे त्रसगडगंभिनजायं जी २० २३ हिय
प्राकरिनेवक्षोषणार अमनदुःखधरं २४ जावेन्यात्तुजीवतां नामविकाजकरं
२५ मिर २६ जी २० जाप्रुक्तनाण्यावधुं विद्यतगकंविमरुतरे तोप्रिनस्यंगसं २७ २८
समस्यंविहनीजानरे जी २१ २९ इमनितीदामीपुंषं कदातं कुंभदासं ३० नका
निजरकरिनिर्षीइरे मानंमुक्तअरदासं जी २२ ३१ हलीनेकाहीयरीरे ३२ इम
लाथाकं ३३ तोहिं ३४ तत्रलात्पानहिर ३५ नीश्यानरुजं ३६ जी २३ ३५ त्रसकरीना

मायबापनेंपरीहरीरे कीधोजेहनेसाथरे फिटहियनासुटेनहीरे विठम्योतेप्रां
णनाथरे जी० ए० धवलमेवतिहंयाद्वीउरे कूनाकरेंविलापरे सूंकाजेऐदेवनं
रे हीजेकीसासरापरे जी० ए० डखसयोपांणसकस्यारे भूपमस्योजिमदोररे
थारजआपनमुंकीइरे करीइंहिउंकवोररे जी० ए० मणीमालिकमाहीपरेंरे जे
हनापुंणअभिंशंपरे जिहंजास्पेंतिहंतेहनारे फगतहरसिरठांपरे जी० इ०
विंगवचनएहंतुंमंणारे मनिधितइंएदोररे एकर्मइंणंकस्यारे अवरनवयरीको
थरे जी० धनरमणीनीजालवेरे कीधोसांपीजेहरे मांतुंथइंआवीमिलेरे पांम
लेकिंउंलोहरे जी० २ शालहविंकिमराषस्युरे एकरस्येंउपयात्तरे करीइंकंत
लणीपरेरे सायरजंवायात्तरे जी० ३ समकालेंविहंजणारे मनिधारीएवात्तरे
इणिअवसरतिहंउपैथुरे अतिविसमोउतयात्तरे जी० ४ हालकह्वोनम्पाथर
थयोररे वजिंउंइमवाथरे थोरधैरींघनाघनगाजीयोररे

जीव ५ ऋचाशंभकमकमरे उमीजाइसमदोरे हाथेहाथसूजेन।हीरे थउंअंधा
संघोरे जीव ६ बीरबावनेंपरवस्यारे हाथेविविधहथीयारे उमीदारदोमैबना
रे व्यास्वत्तरपदिहारे जीव ७ बेंधामृगपतिवाहनेरे चक्रजमामेहाथरे चक्केसरी
पाउधारीयारे देवदेवीबजसाथरे जीव ८ हणोऊबुद्धिमिचनेरे जिणेवांकीमति
दीधरे क्षेत्रपालंतवतेयह्यारे खंनरतनुकीधरे जीव ९ तेदेवीबीहनोघएरे म
यणांसरणेपईठरे मेठपश्वपरेधूजतो देवीचक्केसरीदीठरे जीव १० जारेकंको
जीवतोरे सहीसरणसपसाथरे अंतेंजाइसजीवथारे जोमनिधरीसअत्याय
रे जीव ११ मयणांनेचक्केसरीरे बलावेंधरीप्रेमरे वबनकांइंविंताकरोरे उम
पीउनेबैषेमरे जीव १२ मासएकमाहिंसहीरे उमनेंमिलस्पेंतेहरे रजरमलिऊ
धिजागवेरे नरपतिससरागेहरे जीव १३ बेंजनेंकंठेठवेरे फूलअमुलिकमा
जरे कहेंदेवीमहीमासंगोरे एहतोअतिहिरसालरे १४ जीव सीलजतनएहथी

७८ जीरेपदीयासाहरमांदिं एकजडुखनीयामिनी जी जीरेज्जुबीजाराति
 इतिपरिंपरणाकामिनी जी ७९ जीरेनृपदीयाआवास तिहांसुवनरिलीलाक
 रं जी जीरेभयणरेहासुनेह दिनरअधीकेरोकरं जी० ८० जीरेनृपद्येवज्ज।
 अधिकार नृपैकुंमरनवंतेतेहिं जी० जीरेथयोथगीधरआप पांततणांबी
 मांदिं जी० ८१ जीरेजेकोइअतिगंणवंत मांदिंनृपजेहनें जी० जीरेते
 हनेंबीमांपांन देवरावेंकुंअरकनें जी० ८२ जीरेबीजेवंदेएह बीजाटाल
 हाप्रणी जी जीरेसिद्धचक्रगणप्रेति नविसंणज्योविनयेनणी जी० ८३
 बाहणमांदिंजेऊर्द हवेसंणोत्तेवात्त धवलनांपकालोहित्यं हरष्योसातेंधात्त
 मनचित्तेपुजनापथी मोटीथर्दसमाधि पलकमांदिंविणउसदेः विरुर्दग्रीविरा
 ८४ एधनदोइसंदरी एहसहेलीसाथ परमिसरपुजपाधरो दीधं हथोहाथ ८५
 कूदीमायाकेलवी दोइंराजहेनारि हथलेइमनएहनां सफलकसंअवतार

द्वीयाश्चरितसद्वये क्यणसुकोमलरति अनुकरमेवसिकाजीइं नहोइंयरांणेंडी
 हि ष्ठ धूरतइमवित्तमांधरी करेअनेकविलाय मुषिरुयेहियमेहस्पे पापविगोवि
 आप छे डाल वालिअरहोरहोरथिफेरवो एदेशी जावजीवनप्रककिहांगयारे
 आंकणी घोदरिसणएकवाररे सफणासाहिवडुंमविनारे अमनेंऊणआधाररे
 जी० ए० सिरकुटेपटिंहिउंरे मुंकेमोटीवोकरे हाली छोलथयोघणारे नेलाऊअ
 लोकरे जी० ए० कोउकजोवानेवप्यारे मांवेवाहणनीकोरे हैदैवएसुंथसुंरे नू
 टाजुंनदारे जी० ए० जवबिंऊंमयणांनणारे कानेपमीसेवात्तरे धुसकपन्योतव
 क्षमकोरे जांणेंवजुनिर्घांतरे जी० ए० थरअचेतधरणीढलीरे करतिकोमिदिषा
 सेरे सहीसहेलीसविप्रलीरे नांषेंजोईनिसासेरे जी० ए० बांटयांवंदनकमकमांरे क
 स्यांवीजणेंवायरे चेतवल्युंनवअरमेरे हियमेंडुःखनमायरे जी० ए० कांइंषांणया
 बावल्पारे मारुहोकिरतासे पहरीयांअलगांरस्यांरे मुंकीगयोअरतासे जी० ए०

जीरेसनमुख्याव्योराय सायेंलेइदोंलसघणी जी० ६० जिरेसिणगास्यागजराज
अंबानीअंबरअनी जी जीरेघंटाघरमाल वापरमणिरयणेंजनी जी० ६० जिरे
सोवनजमीतपलांण तेजालतेजीघणा जी जीरेजोत्तरीयाकेकांण रथजांणेदिनक
रतणा जी० ६१ जीरेवरवेनांधरीसीस साहमीअंबवालिका जी० जीरेमोत्तीसोव
नशूल वधवेगंणमालिका जी० ६२ जीरिराजवाहणवकमोल रयणेंश्रवासण
पालषी जी जीरेसाबिलासेंनध केउपताकानवलषी जी० ६३ जीरेवाजेवज्जवा
जिन्न नविंपात्रपगेपगे जी जीरेसिणगास्याघरहाट पाटसावटुकगमगे जी० ६४
जीरेइंमोटेमंण येसरोमहोत्सवकरें जी जीरेरायसयलगंणयांण ऊंअरजीय
धास्याघरे जी० ६५ जीरेजोसीतेन्याजांण लगनतेहिजदिनआवीउ जी जीरेदेई
वज्जलांदांन रायेंलगनवधावीउ जी० ६६ जीरेतेहजरयणीमांहिं धूआमदनरेषा
स्तणों जी० जीरेरायेंकसोवीवाह साजनमनउलटघणो जी० ६७ जीरेगरथ
घणोमंणार दीधंतवकरमेलणें जी० जीरेजइयेंमहिमादिषि सिध्वकनेनांमणें जी०

कोनिप्रश्ननुसरे चंपकतरुश्चरंवाहिं पर सदा लोके जागते धरमधीवसपरथ कुञ्ज
 रनीरघ्याकरे हरिकेचनरुच ५३ दावानलजलधरहोत्रं सप्यहोद्रफलपाल पुन्यवत
 प्राणिलहे वगिश्कृद्विशाल ५४ करेकृष्णोपासवा ह्यूनकोफिउपास्य पुन्यवंतने
 तिसवे श्रुयतांकारणथाय ५५ थलप्रगटेजलनिधीवर्धे नगररोनिमांथाय विया
 अमृतश्रैयरगेने श्रवपूज्यपसाथ ५६ हाल रागप्रधमादन जिनतादरीवाणीश्च
 श्रीथरसालकृणतांमजसातावालीजिरेजी जीरेमारेंजाण्णिकुञ्जरजोम तवेदेधे
 दोलतमिली जीरेजी जीरेकृत्तनतासेबद्ध करेवीनतीमनरुली जीरेजी ५७
 जीरेसोप्रीअरजेअमारींएक अवधारेआदंरकरी जी० जीरेन्यरीठाणानाम वसे
 जिमीअलकापुरी ५८ जीरेणे जिरितिहाराजावसुपाल राज्पकरेंनरराजीउ
 जी० जीरेकृंकणदेशानरिंद जसमहिमाजगगाजीउ जीरे० ५९ जीरेएकदि
 तसेनाप्रकार निपीतीउएकआवीउ जी० जीरेप्रसनपूर्ववाहेत

जवाहणनीकोरंमंचेंवांधीयारे मां० दोरत्तणंअवलंबेंउपरिसंधीयारे उ० तिहांवेंसी
नेंसीतत्तेऊंअरेंनेंकेहेंरे ऊं० दयीअचरीजएहकेंपुजपनगहगहेंरे मु० ४८ प्रग
रएकमुषआठकेंदिसेंजूऊंअरे दि० एहवारूपसरूपनहोस्येंनऊंअरे जोवा
इबोसाहिंबतोआवोवहीरे आ० पतेंकाढस्योवांकजेकांइंकदूंकनहीरे कं ऊं
य रमांचेंतांपवढ्योउतावलोरे च० उतरीउत्तवसेवधरीपनआंपलोरे ४० विऊं
पासंविऊंमिचेतेदोरजकापीयारे दो० करताएहवांकर्मनबीहेंपापीयारे न०
४९ पमतांसाहरमांदिनधयदमनधरेरे न० सिधचक्रपरत्तयकेंसुर्विसविसंक
टहरेरे स प्रगरमच्चनिषुठिवैवाधिरथरेरे वे० वाहणनीपेरेंतेहकिंपुहलोत
टजरेरे पु० प० उषधीनेंपहीमाइंजलनयनिस्तेरेरे ज० सिधचक्रपरजावेशुर
सानिधकरेरे शु० त्रीजेंखेनेंढालएपहिलीमनधरेरे प० विनयकहेंनविलोक
किंनवसायरतरेरे न० पर ह्हा ऊंकरकिंतेउत्तस्यो पुऊंतोएकवनमांदिं श

नही आपणारे व० ३५ उदकननावे अन्नत आवेना इदारे उलसवानसथाइके जकन
 ही एक घणारे ज० मरिवपुंके नि सासके दिन २ हबलेरे दि० राति दिवसन विजायके म
 नवज अंपलेरे म० ३६ चारमिल्यात्तसमित्रके संखे प्रेमस्युरे ३० कृणथयो उग्रहरो
 गके जरो एमस्युरे ४० के विंता उत्तपत्तके कोइक आकरीरे को नार्थ्या उधारके मनका
 हुं करीरे म० ३७ इखक हो अमत्तासके उपाय विचारीयेरे उ० विंता साहर एकके पार
 उत्तारीयेरे पा० लजापुंका सेठक हे इ प्रविंतव्युरे क० तव्यारिं कहे धि मित्रके धि एस्यु
 लव्युरे धि० ३८ परनारिने पापे नवो न विच्छेदीरे ज० किम करत रानी मालरू हर्षे ज
 दीइ ५० परउपगारि एह जि स्या जगके वनेरे जि० दीगे परत ध्यजासके मदिमा एवदि
 रे म० लोना व्यादे इवार इति उमजी वतारे इ० उगरीया धन मूल जो पासे ह एह जारे पा०
 तास्यो थं न्या वाहाण इति आगति रहीरे इ० एह वो पुरुष रतनके जगवी जो नहीरे ज०
 ४० करि एहस्यु दोह जो विरुजे ताकस्येरे वि
 रे अ० नापे ला धि रूदी एति जो एव हीरे ए०

त्रिणिमीत्रहीतसीषत्तेद्रमदेद्रगयारे सी० बोथोकहेसुणि सेठकेएवयरीथयारे ए०
गणींद्रवापनेंपुन्यकेलषमीजोमींद्ररे ल० लषमीहोइंगांततोपापविबोमींद्ररे पा० ध३
उपराजीइणिऋदितेकाजेताहरेरे का धणीथाइंभापवंतकमाइकोइकरेरे क कर
सुंइस्पोउपायकेंएदौलत्तघणीरे ए० अनेंसंदरीदोयकेंथास्येनूंमतणीरे था० ध४
जिप्रयामेविश्वासमिलोतिप्रएहस्युरे मि० शुखिमीवीकरोवातकेंजांणेनेहस्युरे
जा० श्रीवीलागीवाततेसेठनेंपनिवसीरे से० आव्योफीटणकालकेंमहितेहनी
षसीरे प्र० ध५ ह्मजदेषेमांगनदेषेमांकमारे न० मस्तकलागेंचोटाइंतवरांकमारे
र था० रोगीकरेकुपथ्यतेजागेंप्रीवमुरे जा वेदनव्यापेजापतेथाइंअनिष्टमुरे था०
ध६ वेसिंऊंअरयासिकिंविनयघणोकरेरे वि तूपकजीअवधारिकेंफरखइमउच्च
रेरे शु० पूरवपून्येपसायनूंमसेवाभिलीरे नू० यगरनूमहयसायकेंअमआस्याफलरे
अ० ध७ जोतांनूममुखचंदकेंसविष्णुवलेषीइरे स० रषेनुमारीवातकेंविस्तइतेषी
ऊंअरसघलीवाततेसाचीसद्देहेरे सा० इरजननीगतिभोतितेसज्जनविलहेरे स०

धृतितीयः खेमः संशर्षम् २ उँनमः इहा सिधचक्रनागं एघणा कहेंतां नवेपार वं
 बितपूरें हृषहरे वं हं वारो वार २६ सनाकहें श्रीपालनें समृद्धचतारोपार अमनें
 उत्कंठाघणी संणवामकरों वार २७ कहें कवियणप्रागलिकथा मीठी अपी
 यसमान निंदाविकथापरिहरी संणज्योदेईकांत २८ धवलसेधज्जरें घणं देषीं
 यररुधि एकलमो आव्यो हतो है है देवस्फंकीध २९ जेकिरत्तरे वनाकीया तेसुं
 केहीरि दंतपम्यागिरिवाप्ततां कुंजरपामें वीस ३० वाहणअटीसें माहरां लीधं सि
 रमें देइ जो उंघरिं किमजाइं स्पे रुधि एवमिलेइ ३१ एकजीवबइं एहेनें नां पुंजजधाम
 जार पबें सयल एमाहसं रमणिक्रुधिपरिवार ३२ देषिनसकें पारकी रुधि हीयें जस
 वार सायरथाइं हबजो गजं हें जलधार ३३ वरमालें वनरायजो सविन्वयध्रवथाय
 जाइजवासानुं कि सुं जेउजोसुकाय ३४ दाल शीतलतरुअरबां हकें बां हवालं ननरे
 बां ० एदेशी देषीकामिनी दोइकें कामिव्यापीयेरे कां ० वलीघणो लीं नैधनलोभकें वा
 ध्योपायीउरे बां ० लागादोइपीशाचकें पांदिं अतीघणं रे पी ० धवलसेधकं चित्तकें वसि

... १२ ... १३ ... १४ ... १५ ... १६ ... १७ ... १८ ... १९ ... २० ... २१ ... २२ ... २३ ... २४ ... २५ ... २६ ... २७ ... २८ ... २९ ... ३० ... ३१ ... ३२ ... ३३ ... ३४ ... ३५ ... ३६ ... ३७ ... ३८ ... ३९ ... ४० ... ४१ ... ४२ ... ४३ ... ४४ ... ४५ ... ४६ ... ४७ ... ४८ ... ४९ ... ५० ... ५१ ... ५२ ... ५३ ... ५४ ... ५५ ... ५६ ... ५७ ... ५८ ... ५९ ... ६० ... ६१ ... ६२ ... ६३ ... ६४ ... ६५ ... ६६ ... ६७ ... ६८ ... ६९ ... ७० ... ७१ ... ७२ ... ७३ ... ७४ ... ७५ ... ७६ ... ७७ ... ७८ ... ७९ ... ८० ... ८१ ... ८२ ... ८३ ... ८४ ... ८५ ... ८६ ... ८७ ... ८८ ... ८९ ... ९० ... ९१ ... ९२ ... ९३ ... ९४ ... ९५ ... ९६ ... ९७ ... ९८ ... ९९ ... १०० ...

इंगल विंजंपवेच्यापायलेजी ए५ करीअगन्यनीसाध २ प्रंगलचारिवरतीयांजी
फेरीफरतांतांम दाननरिंदेवज्जदीयांजी ए६ केजवीउकंसार सरसफगंधोम
हमहेंजी कवलधवेफुषमांहिं मांहीमांहिंमनगहगहेंजी ए७ मदनमंजुधानारि
अमंयरणीइणियरेंजी विंजंनारीस्फंजोग स्रुषविलसेंससराघरेंजी ए८ रुषन
देवपासाद उंत्सवपूजानितकरेंजी गलगांनवज्जदान वित्तघणंतिहांवावरइ।
जी ए९ चैत्रमासेंशुषवास आंबिलउलीआदरेंजी सिध्वकनीसार लाषीणी
पूजाकरेंजी ५०० नरतावीअमारि कुंयररायवेवामतीजी नृत्यकरावेंसार जि।
नवरच्यागलिमनरुलिजी ५०१ इणिवसरकोटवाल आवीअरजकरेइसीजी
दाणवोरीइंचोर पकम्योतसआडाकसीजी २ वलीभागीउमआणि बलबंजळं
पणिआदस्युंजी अमेदेवाम्याहाथ तवमोहमुंजांभुंकस्युंजी ३ राजाबोलेतांम दंम
वोरनोदीजीइंजी जिणहरमांएवात कहेंऊंअरकिमकीजीइंजी ४ नजेरंकरीहजर
पहिलांकीजेयारभुंजी पळेदीजेदंम सज्जेनेंहोयेंसारिभुंजी ५ आंणोजसइंहजर

पवित्रिती सोवनमालिकछेन फूलमालअतिफूटरी महकेंसबलकरेंन ८५ दाल
रागबंनारती श्रीआदीसरदेव अजवेसरअवधारीयइंजी एदेशी हवेंश्रीपालकुंमा
र विधिपूर्वकमज्जनकरेजी पहिरेंसविसिएगार तिलकनिलादेसोहाधरेंजी ६६
सिरपूणलेंपूप प्रणिप्रोतीमालिकजप्योजी हसंनहीरहेज जांऐरुंनृपसिरखदपे
जी ८७ कानेंकुंफलदोइ हारहीयेंसोहेनवलषाजी जन्वाकंदोरेंरत्न बांहींबाजबं
धवहिरवाजी ८८ सोवनवेंटीवेढु दसंआंफलीइंसोहीइंजी प्रघतंबोलकरेंग नरन
रामनमोहियेंजी ८९ करधरीश्रीफलपांन वरघोमेंसविसंचम्याजी साबेलाश्रीकार
सहसगमेतवयरवस्याजी एबे वाजेंदोभनीसांण सरणाइंनंगलघणीजी रथवेठीसें
वधु माइंमंगलजानणीजी ऐर सावसोनेरीसाज हयवरहिसेनाचताजी सिरसिडुरसो
हेत दीसंपयगलवाचताजी ऐर चोहटेंरुलोक जइंमहोत्सवनवनवेंजी इंममोटेमंफां
ण मोहनआव्यामांनवेंजी एर पुंषीआंणप्रांहिं सासइंरुलटघणेंजी आंणिवोरी
प्रांहिं हरषघणोकन्यातणेंजी एध करमेलाधोकीध वेदपावबांअणनणेंजी सोहगगा

उनाथरुंवेमखेंजी वंदेंसज्जसपाथरे ७४ कुंठे ठालसंणींद्रमसा
जातीएहरे विनयकहेसिध्वकनीजा नगतिकेरोफणीहरे ७५ कुंठे हहा वैवाजि
एहरबारणे शुष्मंमयसज्जकोय कुंठरनिरधीरायतुं हिमकुंठरवित्तहोय ७६ धन
रसहेसरकल्पसु धनवकेसरिदेवि जासपसांद्रमुजफल्या मनवंवित्ततवेव तिल
कवधवेकुंठरने देईश्रीफलपांन सजनसावित्रेमेकरी दीधंकन्यादांन ७७ श्रीफ
लकोफलसयगाने देईघणातंबोल तिलककरीनेबांटणं कीधंकेसरघोल ७८
निजनेरेंकुंठरगया मंदिरपोहतीराय विंजंपासेंविवाहना घणामहोत्सवथाय ७९
वनीवद्वारणद्येवनां वापमघणात्तलाय केलवीपकवांनबजें मंगलधवलगवाय
८० बागासविंनवनवा हरजीबैठाबार जनीयाप्रलियालिकजमे घाटघडेसोनार घर
रायेमंमवोमंमवो सोवनमलिप्रयथंन थंनरमलिपूतली करतीनाटारंन घर तोर
८१ निबारणे नीलरयणप्रयपांन ऊमेप्रोतीकूमवां जालेसराविपांन घर पं
८२ नीटांम प्राहुंतारांमंमले आवीकीयोविसरांम ८३ वींरविजं

एतां देवतायां मनमोहनप्रकृतप्रतण्जि दरिसणदीवुतां ४७ ५०
जाणंदेवीचक्रेशरीजी उद्देआणाअद्वास जिणहरवारउघादतांजी फला
स्यंसज्जनीआस ४८ ५० पूज्यपधरोदेहेरेजी ऊहरोश्रीजगदीस उघदस्येतेवा
रणोजी जाणंदिसवाविस ४९ ५० बीजेवंदेइणपेरेजी सुणतांबवीढाल वि
नयकहेश्रोताघरेजी होज्जोमंगलपाल ५० ५० इहा तवहरयेऊंअरनेणं धवल
सेतेनेतेदि जइयेदेवजहारवा आचोइरमहिफेदि ५१ जिसेवंकहेजिनवरनमो
नवराउमेनिविह विणउपराजइंजेहनी पुह्वेमननीपति ५२ अपनेजिमवाने
नहि घनीएकपरवार सीरामणवालूजिमण करीइंएकजवार ५३ तवऊंअर
जावातिहो जवथाइंसवार हरषोदिघारवकरे तेजीनांमउपर ५४ साथेले
ईजिणदासेने अवरअंवलपरिवार अनुकमेऊंअरआदीया कृषनदेवदरवा
र ५५ एकेकोआवोजई सज्जगजारावास ऊंअरपवेपधारस्ये इमबोले अहास
५६ जिमनिरणयकरिजाणीये वारउघादणहार मनारेआं स

लोजी दोसनहीउजएह दोसहंठइंमाहरोजी आणीउजपरिनेह ३७ प्र०
वरनीचिंताचिंतवीजी जिणहरमांहिजेण तेलागाआसातनाजीवारदेवाणांतेण
३८ प्र० जिनवरतोस्तसेनहीजी वीतरागसुप्रसिद्ध पणिकोइकअधिष्टायकें
जी एमुजसिष्यादीध ३९ प्र० एकमासविणउघमेंजी जावुंनहीआवास सपरि
वारनृत्येंतिहांजी विणिहूयाउपवास ४० प्र० त्रीजेंदिनतिसिपावलीजी वांणी
हूर्इआकाश दोसनथीइहांकीयनोजी कांइकरेरेविघास ४१ प्र० जेहनीनजरें
देषतांजी उघमस्येंएबार मदनमंजुषातणोयस्येंजी तेहिजनरत्नरतार ४२ प्र०
कृषनदेवनीकिंकरीजी कूचकेसरीदेवी एकमासमांहिहवेंजी आवुंवरनेले
वि ४३ प्र० संणीतेहरष्यासक्तजी रायनेअतिआणंद प्रेमकीधंषारणंजी
हरिगयाद्वषदंद ४४ प्र० दिनगणतांतेमासमांजी उलोवेदिनएक तिणेंसऊऊ
इंवाटमीजी विकल्पकरेंअनेक ४५ प्र० पुत्रसेठजिनदेवनोजी ऊंआवकजिन
दास प्रवहणआव्यासांनलीजी आव्याइहांउछ्रास ४६ प्र० संणीतादनाटक

प्रतिबंध कनकपत्रकरीकोरणीजी विधिंरत्नकरंग २६ प्र० आच्योराय
रुहारवाजी देवीसुताविज्ञान मनविंशेधनमऊध्याजी चोसत्रिकलानिधो
२७ प्र० एसरिषोजोवरमिलेजी तोऊमनशुषंथाय साचीसोवनमंघी
जी कावतिहांनजनाय ३० प्र० इंपउनोसंनोमनेंजी चिंताउरनृपदोय ६
णेअवसरअवरिजथउंजी तेसंणज्योसहकोय ३१ प्र० ओंसरतिपावेपंगे
जी जिनमधज्योतिसार आवीगनाराबाहरेजी जवत्तेराजऊंमारि ३२ प्र० ताम
झारोत्तेहनाजी देवाणंदोयवार हल्याव्याहालेनहीजी सलकेनहीनगार ३३
प्र० राजऊंयूरदूमविंशेवेंजी मनआणीविषवाद मेकीश्रीआंसत्तनाजी कोर
धरीप्रमाट ३४ प्र० धिगमऊजिनजोवार्जेतलोजी उपनोएअंतराय दोषसथल
ऊंसोसहोजी सापीकरिसुपसाय ३५ प्र० दादादरिसणदिजीयेंजी एह्यवे
पमांय बोसनेंऊबोसुआंजी मावितकरिसुपसाय ३६ प्र०

कूपरेथये कुंअरपूवेसास कुंणकारणकुंणवामथी यधस्वाअमयास २० हा
ल जांजरीयाफनिवरधनधनहंमअवतारि एदेशी तेषुसवह्वेवीनवेजी स्तनदी
पकरंग रतनसानकपरवतइहांजी वलयाकारखत्तेग २२ प्रक्तवित्तधरीनेअवधार
रोफकवात्त आंकणी रतनसंवयोतिहांवसेंजी नयरीपवतिमांदि कनककेत्र
जातिहांजी विद्याधरतरनाह २३ प्र० रतनजिसीरलीयाभणीजी रत्नमालातस
नारि करसुंदरीसोहाभणीजी नंदनबेजसव्यार २४ प्र० तेजपरएकईवत्तांजी
पुत्रीऊईगंणधाम रूपकलारतिआगलीजी मदनमंजुषानांम २५ प्र० प्रवता
शिवरसोहाभणोंजी तिहांएकबेष्सासाह राइंपिताइंकरावीयोजी मेरुस्यंमंमंवा
द २५ प्र० सोवनमयसोहांभणोंजी तिहांरिसहेसरदेव कनककेत्रराजातिहांजी
अहनिसिसारिंसेव २६ प्र० भगतिंजलीशुजाकरेजी राजकुंअरेत्रिणिकाल अग्र
ऊषेवेणस्कुवेंजी गाइंगीतरसाल २७ प्र० इकदिनजिनआंगीस्वीजी कुंअरीइं

रथणदीवधेमेंसङ्गरे नंगरजलमेज्यारे सददोरसंकेत्यारे हलहलश्लोक सवेतिहं
 उत्तस्यारे ७ बीर्जेप्रमधेनेरे ज्जुत्तुपुन्यअपंनेरे एकलेप्येमिंउपराजणकरीरे कुंअ
 रश्रीपालरे लहोनेभारसालरे पांचमीढालरसीवितयेकहरि १ इहा. दाणवण २
 वीवस्तुनां नगीअनेकवपार, व्यापारीव्यापारना उद्यमकरेअपार ५ लालकीना
 यत्तजरकसी चंद्ररुआधोसाल उंचातस्तंणीया पंचरेगपदसाल १३ सोकनपट
 मंडपतले. रथणदीमेजेपाट तिहांदिवाकुंअरज्जुं रसनरिनवरसनाट १४
 धवलसेतव्यावीकहे वस्तुमूलबज्जआज तेवेवावोकांनही नसांअटीसे
 जिहाज १५ कुंअरनेणोंसेवने - धमोवस्तुनांदांम अवरवस्तुविणजोवली
 करोअमासंकोम १६ कोमनलावुंअपनले हरष्योडृष्टकिराफ आरतिध्या
 नेंजिमपम्यो पापीहृद्विजाफ १७ इणिवसरआव्योतिहां अवलवपआ
 सवार सुगणसुसुपसुवेपजस आपसमोपरिवार १८ कुंअरहेमीआदेरे
 बेसारीनिजपास अदचूतनाटकदेशतां तेपाप्पोउह्वास १९ ह्वेनाटि

नूइसात्तमीइरे तीहांचढीवीसमीइरे वेंसानेरमीइसोवनसोगवेंरे वज्रवंदेंबाजेरे
वाजाघणांवाजेरे वाहणागाडिरहिनंसफड्मांरे ३ पूरेत्तेरस्तेनेरे राजावज्रजत्तनेरे
सासखासोप्रनमोटेकरेरे वोंलावीवेटीरे हियफानरिनेटिरे शिष्यागणयेटीदीइंब
जपरिरे ४ साजनसोहाव्यारे प्रिल्लणांवज्रलाव्यारे कांतेंसविच्याव्याच्यांरूपाप्रतारे
वरवज्रवोंलाव्यारे मवित्रक्षपाव्यारे ५ इरवज्रमाव्यांहवंप्रयाणनांरे ५ नांगरउ
पदाव्यारे सददोरचढाव्यारे वाहणाचलाव्यावेगीषलासीइरे नित्यनाटकथाइरे
गंणीजनगंणागाइरे वरवज्रविज्रसुहावेगीषमंरे ६ मनिधित्तेसेवेरे मंकीधीवेठ
रे सायरठेठफल्पोजूउएहनेरे जेवालीहाथेरे आव्यामकसाथेरे आजत्तेच्याथेसं
इरणथ्यारे ७ जलइंधणमाटेरे आव्याइंणवाटेरे परण्योरणसाटेज्जुसंदरीरे ।
लषिमीफकच्याधीरे एणिमहियांलाधीरे दोलत्तवाधीदेवोपलमांरे ८ किममागंजा
मुंरे षतयत्रदेवामुंरे देस्येकेंच्यामुंअवलुंबोलस्येरे कुंयरत्तेजांणारे फयमीवीवांणारे
नामुंतसच्याणीआपेंदसगंणारे ९ याम्याअककरमंरे नरनवजिनधरमंरे वाहण

लेशगरिरे-त्येय प्रहोत्सवमंनोवेरेसाजनसङ्गत्रोवेरे धवलगवरावेमंगलनर
वस्तुरे स्तूपेजिसिमंतारे मणपारनजेहनारे प्रदनसेनापरणावीदृतिपररे त्येद मणि
मणिककोदरे ह्यगयरथजोदरे नरपत्तिकरजोमिद्येकरमोचणारे परिस्पहिरावे
रे मणिनूषणत्रोवेरे पारनत्रोवेजसंगणबोलतारे-त्ये नाटिकनवदीधारे जि
हापात्रप्रसीधारे जोलेणमोलिनीधंस्वर्गथी वज्रदाम्नीदासरे सेवकसङ्गविलास
रे दीधंघट्टासेसेवाकारणारे त्येद रसनरदिनकेतारे इहारेहंस्वरंवेतारे दानय
चकनेदेतावज्रपरेरे अमनेबोलावेरे हवेवारनजावेरे कहेकुंशरअमजाबुंदेसे
तरेरे त्ये नृपमनिडुषत्रोणेरे किमराधुंशारे घरमजोणेनवसेंशजंणेरे पुत्रो
जाइरे तेनदीपराइरे करेसजाइहेवेबोलाववारे धुवे एकजंगअलंबरे जेदपीअ
चंजरे बोसतिऊअथंनेसोहरे कारीगरघनीयारे मणिमणिकजदिठारे अंन
तिअपीयाजईगयणंगणेरे धुवे सोवनचित्रामरे धिचित्तअनिरामरे देवीइंवांप्रतिहे
गोषदरे धजनेजाफलकेरे मणितोरणचलकेरे चंचलटलकेवामरविहृदिसिरे धुवे

हेनररायने दाषिणकिमबंमाय तिणिनशरीजोवाजणी कुंयरेंकीयोपसाय
दय हाटसज्यांहीरागले घररतोरणमाल वोहटेंशचोकमां नाटकगीतरसाल
दले फूलबिबाह्यांफूटरां पंथकरीबटकाव गजत्ररंगसिणगरीया सोवनरूपे
साव ऐ० ढाल रागसिंफुने वित्रोपाराजारे एदेशी वीनतीअवधारेणै पुसमांहि
पधारेणै मोहत्तवधारेबब्वररायनुरे कुंयरवमनागारे देषीसोनागारे जोवारडिला
गीपगरलोकनेरे ऐर घरित्तेमीआव्यारे साजनमननाव्यारे सोवनमंमाव्याआस
नवेणैणैरे मीवाइमेवारे पकवानकलेवारे भगतिसेवाकरेबब्वरवज्यारेणै ऐर
भोजनघृत्तघोलेरे उपरेतंबोलेरे केसररंगरोलकरेबज्जबांटणैरे सविसाज
नसाधेरे मधेप्रकसंभाधेरे अंतरनराधेकोइधेममांरे ऐ३ दिइकंन्यादांनरे देइ
बज्जमांनरे परणीअमवांनवधरोवंशनोरे तवकुंयरनाधेरे कुलजाण्यापाधे
रे इमकिमचिन्नसाधेदिजेटीकरीरे ऐ४ कहेनृपअवत्तंसरे बांनोनहीहंसरे
जाण्योउप्रउत्तमवंशगणैकरे जाणैसक्तकोइरे जेनजरेजोइरे हीरोनविहोवेवि

एवस्त्रपहिरांमणी जीहोकरेंघणंसतकार ७० सु० जीहोसुभटजीकेनाठाहत । २
जीहितेआव्यासहृकोइ जीहोभांजंतसय्याजीवका जीहोकोपकरेंसेतसोइ
७१ सु० जीहोकुंयरेतेभवीरायीया जीहोदीधितेहनीवृत्ति जीहोवाहणअटी
संप्राहसं जीहोसाचवय्योएकवित्त ७० सु० जीहोजेपुणवच्चररायनो जीहोनाठो
ययोपरीवार जीहोकुंअरेतेदतिहेनें जीहोआदरदीइअपार ७२ सु० जीहोचो
थीडाअइंणियेरें जीहोबजिंषंमंहेय जीहोविनयकहेफलपुन्यनां जीहोपुन्यकरे
सज्जकोय ७२ सु० ह्हाः महाकालश्रीपालकं देधीक्तजबलतेज विन्नचमको
इमवीनवे हिअमंआणीहेत ७३ मऊमंदिरपावनकरो महिरकरीमहाराज ७४
टयोश्र्वनविकस्यां पुन्यअमारोअज ७४ अमसरिपासुपूरिसतणो अमनेंदरि
सणह्लंनजिप्रमसुधरनालोकनें करतसऊसुमसुसं ७५ बीजावाविणएका
लो चालीनसकेदीन धवउसेहतवविनवे इतिपरिथरअधीन ७६ अऊइंमा
नैवंठेसंरु देधीपुन्यपपुर पणिविलंबथाइंघणो रत्तनदीपवेइं ७७ कुंअरक

रूपनिधानं दृष्टे स्रुवे जीहोत्रुंसंदरसोहामणे जीहोदीसेजोवतवेश जीहोविणषूदे
मरवाभणी जीहोकांद्रकरेनुदेश ७० स्रुवे जीहोकहेंकुंयरसंयाप्रमां जीहोववन
कीस्योव्यापार जीहोयोधेयोधमिष्याजिहां जीहोतिहांशस्त्रिविवहार ७१ स्रुवे जी
होमहाकालकोप्योतिहां जीहोहलकरेनिजसेन जीहोक्रंकिंशस्त्रुजमौजमिं जी
होरतोरातोरोसरसेन ७२ स्रुवे जीहोबुंठातीघातीरना जीहोगोलानाधेलाष जी
होपणिअंगेकुंयरसंया जीहोनापीनहीसराष ७३ स्रुवे जीहोआकरषीजेजेदी
सें जीहोऊंअरनांषेबांण जीहोसमकालेंदसवीसना जीहोतिहांबंमवेंशोण
७४ स्रुवे जीहोसेन्यसयलमहाकालनुं जीहोनागीगयुंदहवट जीहोवृषएव
कीकुंयरे जीहोबांधोबंधनिघट्ट ७५ स्रुवे जीहोबांधिनेनिजसाथनें जीहोपासे
आण्योजांम जीहोबंधनबोह्यासेठना जीहोरष्यकनावातांम ७६ स्रुवे जीहोषम
गलिर्दमहाकालनें जीहोमारणधाइंसेठ जीहोकहेंकुंयरबेंसीस्ते जीहोबलदी
तुंउमनेठ ७७ स्रुवे जीहोबंधनबच्चररायनां जीहोबोनाव्यांतिणिवार जीहोभूष

जिहोपावोवजीउराय जिहोतबबोलावेसेठनें जिहोकंपरकरायपसाय ह्र सा
जिहोसुनटसेवेउमकिंदांगया जिहोवांध्यावांहपरोम जिहोएवमुंडपनदेवता जी
होजोदेताफजकोदि ह्र स्रं जिहोसेवकहेंउमेकांदाउ जिहोदाभउपरल्लं जी
होपम्यापठीपाटुकीसी जिहोदृण्यंपूअनेंऊण ह्र स्रं जिहोकहेंऊंयखयरी
यहो जिहोजोवाउंएवित्त जिहोतोमुजनेंदेसोकीसुं जिहोनापोधिरकरीवित्त
ह्र स्रं जिहोसेवकहेंउंसाहिवा जिहोएकमुजकारिजसाधि जिहोविंहवीवा
हणपांचसें जिहोलेस्यंअधोअधि ह्र स्रं जिहोबोजबंधसापीतलो जिहोकं
यरपानीतंत जिहोधकयतारतरकसयही जिहोवाल्पोतेजअनंत ह्र स्रं जिहो
जइवधूरबोजवीयो जिहोबलिपबोवमवीर जिहोरास्त्रीशतबलतणं जिहोन
दुतासंनार ह्र स्रं जिहोउजसरियोजीप्राजलो जिहोपुहतोअह्रघरिआप
जिहोसुपनजीफजहाथनी जिहोवाष्पाधिलकिप्रजाय ह्र स्रं
जिहोदोवोएकजवान

जीहो जलमांकरें कछौल जीहो मां हो मां हिं फूफता जीहो उंचालें कछौल पर सु
० जीहो मगर मछ मोटा फिरें जीहो सुसमार के र्कोदि जीहो नथं क्व कदी संघणा
जीहो करसा हो प्रहो प्र ५३ सु० जीहो आज पवन अनुकूल जीहो जलंधण जोजो प्र
२ जीहो आव्युं ववर कुल ५४ सु० जीहो तसवंदिर मां ऊत्तरी जीहो जल रंधण ल्ये
लोक जीहो धवल सेव कां वें र ह्यो जीहो साथें सुनटना थोक ५५ सु० जीहो को
लाहलते सांजली जीहो आव्या अती सपरांण जीहो दांणी ववर रायना जीहो मा
गें वं दिर दांण ५६ सु० जीहो सेव सुनटना रंगारवे जीहो दांण नद्यें अबूज जीहो त
वति हां ला गुं ते हने जीहो मां हो फूफ ५७ सु० जीहो सेत तणं अने टें हण्या जीहो दं २
णी ना वा जाय जीहो सेन सवल तव सज करी जीहो आव्यो ववर राय ५८ सु० जीहो
राजते जन सक्पा सही जीहो दीधी सुनटे पुं विं जीहो मार पनी तसना सतां जीहो वां
ण नरि र सुं वि ५९ सु० जीहो वां ध्मे काली जीवतो जीहो संपसरी वो सेव जीहो वां
हिं विं जं उं वा करी जीहो मस्तक की कं हेव ६० सु० जीहो रष वाला फं की ति हां १

प्रसस देहलागोपाय करजोमीनेवीनवे वातकृणोएकनाय धर वरसप्रतेएकए
 कने सहसदेउदीनार सेवासरेसहसदस जोधनजाऊकार धर उमनेमंहभाग्य
 दिउं नूमेआवेअप्रसाथ एअवधारोवीनही अमनेकरोसनाथ धर अंतरकहे
 हूंकलो लेहंसर्वतुमोल एसर्वतुंकलो कारजकस्तुअमोल धप तेधनउलेपुं
 कनेदि सेठकहेकरजोमि अमेवणिकजनएकने किमदेवराईकोमि धर अंतर
 कहेसेवकथर दामनकाखुहाथ पणिदेशांतरदेववा हूंआहंमसाथ धप
 जाहुंलेईवाहणमं ओमऊवेसणवाम प्रासप्रतेदिनास्सत वीजाहुंपरधुंताम
 धप हल राममल्हार जीहोजाणुंअवधप्रकंजने एदेशी जीहोअरवेवो।
 दे गोषमं जीहोमोटावाहणं जीहोविहूंदिसिजलधितरंगमौ जीहोजीवेकोउकत्यं २
 ह धर कृणुणंनरपेधोपुन्यप्रज्ञाव आंकणी जीहोपुन्येप्रनवंलितप्रले जीहोह
 रटलेइषवे ५० कृ जीहोसटहोकास्यासामटा जीहोपूस्याघणेपवणेण जीहो
 वनवेधंवाहणवमं जीहोजीथणजाइयणेण ५२ कृ जीहोजलहस्तीयवतजिस्य २

बैतारे ३२ ध० केरुकेहेकायस्त्रम्हे केरुकेहेकोथैरंअपेरांकरे केरुकेहेमारोरवे।
नधीअमारोवांकरे ३३ ध० केरुकेहेपेटारथी असरणअमेअनाथरे ऋखेंदिइं
दसअंगली धेंवलीआमाहाथरे ३४ ध० धवलसेततेदेषतां आवीलागोपायरे
देवसरुपीकोत्रुमे करोअमनेंरुपसायरे ३५ ध० महिमानिषिमोटात्रुमे उमवल
सकतिअगाधरे अविनयकीधअजांणरे तेवमज्योअपराधरे ३५ ध० अवधारे ३६ ध०
अमवीनती करोएकउपगाररे थंन्यावाहणत्तारवी उत्तारोनवपाररे ३६ ध० ऊं
अरएकेहेएकांमनुं स्फंदेस्योऋजभाधुरे सेठकेहेलषसोनीया वृत्तंकाढोगाधुरे
३७ ध० सिद्धचक्रवितमांधरी नवपदजापनचूकेरे वनवाहणउपस्वढी सिंह
नादतेऋकेरे ३८ ध० जेदेवीहसमनहती उष्टगर्तिडररे वाहणतस्यांकारजस
स्यां वाजेमंगलरुरे ३९ ध० बीजेधेंमंडालए विजीवितमांधरज्योरे विनयक
हेएवाहणेंः अविद्यणनवजलतरज्योरे ध० ध० ह्हा तेदेवीवित्तइंधवल चा
ढोवित्तामणिहाथ वमुंवधत्ततोऋजहविं जोएआवेसाथ ४१ एकलाषदीना

२२ ४० कर्कटसहस्रसामटा अविंज्यरपासेरे अनिमांती उद्धतपण्डि कसु
प्रांकथनप्रकासेरे २३ ४० उतिआबंरुजआउपुं धक्लधिंरुजरुठेरे वलिकरस्ये
कुर्जेहणी प्रकरिमांतपनिजठेरे २४ ४० बलिनविथाइंसिंहनी मूरुपदियेविप्रसोरे ४
वत्तपश्चनोवलिकस्यु ववनकाइंवरंसेरे २४ ४० ववनसंगितववांकना सेवनेंभूजट
श्रृणवेरे सेवजीवीनवीरयने बज्जलंकटकथणावेरे २५ ४० एकजनेशियसेनसंग
जवश्रृलीवलज्जकेरे दोहाविविधंकलपयो कायरहियनांधूजेरे २६ ४० कुंतती
रहरवारिना जेजेघालेघायरे कुंयरअंगेलांगेनही उयधीनेमदिपायरे २७ ४० नइसा
परिरणयेतमां विजंदिशिंधिंगनधायरे जन्वितोधवेजाजिस्या सिंगेवलगाजायरे ।
२८ ४० कुंयरताकीजेहेने मारेलावीलेठेरे लहबुहतालांवाधरे तेप्रहवीइंउहठेरे
२९ ४० मस्तकफूटांकेइनां पन्नाकेइनांहांतेरे केइफवेलेहीबहे पनिसनटनीयां
तेरे ३० ४० केइपइंवाहाटमां केइवालमांपेठेरे केइहातेतरणांदीइं गलीयाधइने

क सोहेंवेंवागोषमें करिदीयेंधनरोक १२ ह्वेंनांगरउपायवा वनाजंगनीजाम ना
लिधुकितालिसवि रुईधनोधनतांम १३ सविवाहणनानांगरी करेपरपरजोर
पणिनागरहालेनही सबलमचोतवसोर १४ धवलसेवकांघोथयो चिंतावित्तन
माय सीकोत्तरश्रवणगयो ह्वेंकिमकरवुंमाय १५ सीकोत्तरकहेंसेविसंणि वा
हणथंभ्योदेवि बोधेवत्रीसलघ्यणा पुरुषतणोवललेवि १६ ढाल श्रेणीकमनंथ
वरिजथउं एदेत्री धवलसेवलेईनेटणं आव्योनरपतिपायरे कहेंएकनरफज
नेंदीयो निमबलबाऊलथाइरे १७ धणे रायकहेंतेनरदीठ संगानहीजसकोइ
रे बलिकरज्याप्रहीतेहनं जेयरदेत्रीहोइरे १८ धणे सेवकविंजुंदिसेंसेवना फिरें
नगरमांदिंजोतारे कुंयरदेयीसेवनिं वातकहिंसमोंतारे १९ धणे दीसेंवत्रीसलघ्य
णा पुरुषएकपरदेत्रीरे कहेतोजालीआणीइं सुधिनकोतसलेसिरे २० धणे ध
वलकहेंआणेइहां मकरोघनीविलंबरे बलदिइनखाजीइं वाहरनहीतसबुंव

धरदोयजणं चाल्यापर्वतमांदिरे धाउरवादीरससाधता दीवातिहांतरुबांदिरे
रु वा० तेहविद्याधरनेकहे उमेविधकहीतेहरे तिणीविधेषपत्रमेवजकस्या
नपांमंसीधएहरे रुध वा० रुंयरकहेमऊदेवतां वलीएहकरोविधरे रुंधरनज य
रमहिमाथकी थईततषीणेंसीधरे रुध वा० धाउरवादीकहेनीपनं कनकतंम
परनावेरे एहमांथीपकलीजीइं उमेजेमननावेरे रुध वा० ऊंयरकहेमऊयपन
ही ऊंणउवाहेनारे अल्पतिणेंअंचलेबांधिउं करीघणीमनोहाररे रुध वा० अ
नक्रमेंऊंयरआवीयो असयच्चनगरमकारिरे हेमषस्वीसजार्ककरी अलांवस्त्रह
थीयाररे रुध वा० सोवनमदीधत्तेउषधी बांधिदोयनिजबांदिरे वजविधकौति
कदेवतो फिरेंअसयच्चमांदिरे रुध वा० खंनवीजोएहरासनो एबीजितिसदा
लरे विनयकहेधर्मथीसरनहोयें जिमराउश्रीपालरे वा० रु० हहा कोसंबी
नयरीवसें धरलसेउधनवंत लोकअनर्गलधननणी नांमऊवेरकहेत २।

कदाचिदागारे चंद्रनामसरपंसेते ऊंमरेकीधप्रयाणरे ख वागे देवाहरुगर
नानवनक जेतोकोतिकरंगरे एकलोसीहपेंमालते चट्याएक्यारणंगरे ख
वा० सरमसीतलवनाहना तिहांचंपकवांहे जापजपंतोनरेपेपित क
रीत्रधवांदिरे १५ वा० जपसोकरिपुर्यते बोलोकरिप्रणांमरे कएरुसज्जे
उंज्यावीया मरीउंमहसंकांमरे १६ वागे ऊंमरकदेमजमारुं कहेजेउंमकां
मरे श्रुणज्यागेंउपगारने हीधंधनेदेहराजरे १७ वा० तेइकहेहपाकरिधणी
विद्याककजदीधरे धलोठमकसोस्थवा पतिकारजनसीधरे १८ वागे उत
रमाधकनविना मनरंहनहीवांमरे त्रिणेंउमरकरुंवीनती श्रवधरीयेंस्वांमरे
१९ वा० उत्तरमाधककजयकां करेउंजपोनरे ऊंमरकहेसाधिविद्याश्रुवे मन
करीधीग्येने २० वागे हुंयरुंसाहज्यधीततपीले विद्यातेधरुंसीधरे उत्तम
पुमपजेयादेर तिहांहेइंनवनीधरे २१ वागे हुंयरुंतेतिलेविद्याधरे हीधीउप
एतेणे एकजलतरणीश्रवरची लाग्वास्त्रुनहीकोयरे . चंयरुंदिअ

करज्योतुंमपंथेरे ३ कृ० इंपसीषामणिदेईघणी मातातिलकवधवेरे सबदसऊन
होइलला विजयमज्जरतआवेरे ४ कृ० रासर्व्याश्रीपालनो तेहनेबीजेखेद्रे
प्रथमदालविनयेकही धर्मउदयश्रितिमंजरे ५ कृ० दहा हवेप्रयणोइमविन
वे उंपस्फंश्रविहनेह अलगीषीणएकनहीरऊं जिहांबायातिहोदेह ६ अ
ग्निसहतासोहिली विरहदोहिलोहोइं कंतविबोदिकांपनी जलनजलंतीजो
य ७ कहेऊंयरेसंणो तूंसासुपदसेवि कारजकरिउतावलो हूंआवूंहूंदेवि
८ म्प्रपाषेमयणांकहे पीउउंपचवनप्रमाणे तेंपंजरसंनंपफं उंपसाथेंफऊ
पांण एे हाल रागमल्हार कोस्यतेउनीआंगणे एदेशी वालिमवहिलाआवज्ये २
एआंकणी करज्योमाहरीसाररे रषेवीसारीफंकता लहीनवनवीनारिरे १० ने
वा० आजथीकरीसएकासणं कस्योसवित्तपरिहाररे केवलकंमिसंधारस्फं
तज्यांस्नानसिएणारे ११ वा० तेहिनवलीकहीआवंस्ये जिहांदेवीसपीउपाय
वीरहनीवेदनावारस्फं सिधुचक्ररूपसायरे १२ वा० सद्यनमोकलावीइणीपरे

न्यपालेरे ऐध क० राजकुंलेराजरीसव्यां कुंलेलोपीउंमंओएरे दीसे र
 कोइइंपणा उह्वरलेअप्रंणरे ऐय क० वित्तवाहितोआपणं लीजेवंपराज
 रे बडेंप्रआणेंवालीथें सबलसेनलेईसाजेरे ऐध क० कुंमरकहेंससरात्तणें
 वलेनलीजेराजेरे आपपराक्रमजिहांनही तेआवेकुंणकाजेरे ऐ० क० तेहन।
 णीअमेवालस्यं जोस्यंदेसविदेसरे कजाबलेलवप्रीलही करस्यंसकालविसे
 सेरे ऐ० क० प्रायस्यणीआवीकहें कुंआवीसकसाथरे घनीअनधीसंएकजो
 उंहीजककएकआथरे ऐऐ क० कुंमरकहेंपरदेशां पगबंधननवदाथरे तिए
 कारणउमेइहारहो योआसीसपसाथरे ३०० क० प्रायकहेकुसत्पारहो उत्तम
 कामकरेज्योरे कजबलेवयरीवसिकरी दरिसणवेहिलंदेज्योरे ३०२ क० संकट
 कष्टआवीपमं करज्योनवपदध्यांनरे रयणीरहिंज्योयागता सर्वसमयसावधानेरे
 रभीप्रायकसीधवक्रना जेहकद्वानेंग्रंथेरे तेसविदेवीदेवता यत्न

वाहते कंयरश्रीपाल कहिवाप्रनउदनास एव इकदिनरमवानीकल्पो
रणससी अरधचंदसमभाल लोचनअमीयकचोलफा अधरअरुणपरवाल
एव दंतजिस्यादाडिमकली कंवमनोहरकंबु पुरकभाप्रपरिरुदयतट भजने
गल्लंबु एव केंद्रिलंककेसरीसमो सोवनवर्लसरीर फूलषरेफरवबोलतां क
निजलधरगंभीर एव चोकरवोहटिमिन्यारुपेप्रोह्यालोक महलगाषमेठीवडे
नरनारीनाथोक एव फगधापुत्रेमायने प्राएकंणअभिरांम इंदवंदकेचकवि
स्यांमरांमकेकांम एव प्रायकहेमोटेकरे अवरमकंवोअाल जाइजमाईरायने
रमवाकंयरश्रीपाल एव वचनसंणीश्रीपालने वित्तप्रलागीचोकः धिगससरा
नामेकरी फजवलषावेलोक एव ठाल चउरसनेहीमोहना एदेशीहिनाकरीध
रिआवीयो एआंकणी चपलवित्तश्रीपालोरे उत्सकमनदेषीकरी वोजने
उत्तमअपपुरेसुण्या मध्यमबापपुरोण अधमस

लसितागरीउ ज० चण्डांबोकविशाल ग० धरिघोदिउबले ज० नारल
ऊमल ग० ग० धरिजमास्पहोसेवे ज० तेदिआवाराय ग० संश्रुणस
धनोवावर ज० सिधचक्रसयमाय ग० न० नयरमांहिंप्रागटथरु मपिंफेएह
जवाह ज० जिनशासनउल्लथरु ग० प्रयलांगपीविष्यात ग० दर रासन
लोश्रीपालनो ज० तेहनीरुपारमीठाल ग० विनयकहेसिधचक्रनि ज० सेव २
फलेततकाल ग० दर वंदयंदमिठोजिमयंदश्री श्रीपालचरित्रअघंन श्रीकि
रिजिअवाचकथीलदो प्रथमखंडप्रविनरंकदो दर इतिश्रीमहोयाध्याय
श्रीकिरिजिजयगलिशिष्यावाध्यायश्रीविनेयकिंयंविजयगलिचिरचितेप्राह
तबंधेनगरमातृपितृसिधचक्रमहिनावर्षतानापप्रथमः खंडः समाप्त इतिप्रथ
मखंडसमाप्त श्री ए० इहा सिधचक्रआराधतां शोंबंठितकोदि सिधच
क्रमंतम्यो विनयकहेकरजोदि छ सारदसारदयाकरी दीजेवनवि

णी जणे मङ्गलजन्मरिउंत्तार गणे परणोप्रीतमपरिहरी जणे अवरकसे २
नरत्तार गणे ७१ इणिपरिउन्नोत्तारो जणे जवदीतोतेराय गणे पुन्ययालअ
वसरजही जणे आवीषणमैवाय गणे ७२ राजिवधरोमङ्गधरे जणे ऊउ
जमाइरूप गणे सिद्धवक्रसेवाफली जणे तेकह्योसकलस्वसप गणे ७३
राइआवीउलष्यो जणे मखेगितआकार गणे मनिचितेप्रहिमानिलो जणे जैन
धर्मजगसार गणे ७४ प्रयणोत्तैसावीकही जणे सनामांहिसविवात गणे प्रेअ
ज्ञानयणोकस्यं जणे तेसयलंमिथ्यात गणे ७५ मंत्रुऊडपदेवानणी जणे की
धोएहउपाय गणे ह्यटलीनेसपथयो जणे तेउऊपुन्ययसाय गणे ७६ प्रय
णोकहेसुणोत्तातजी जणे इहांनहीउमवांक गणे जीवसयलवसिकप्रने १
जणे ऊंणाराजाऊंणारोक गणे ७७ माताजीप्रयणोत्तणी जणे रायेमनावीमा
य गणे सजनथयासविएकमना जणे उलटअंगनमाय गणे ७८ नयरसप

सूर्यपाल द्व ताल रायकहेरंगलीप्रतिफलकांपनि एदेशी आवेजप्रति
ला जयवंताजी अन्धकारोपवित्र फणवंताजी मजनइंअवरीयउपजइं ।
जप संणतांडुचरित्त मं० द्व गतवेसारीउत्सवे जवे पधराव्या निजगेह मं०
वे माउलकसरोधरवइं ज० जोगनलाधरीनेह मं० द्व एकदिनवेवापलीइं
प्रयणोनेश्रापाल मं० वोजेदेनवनवे जप पादजकंगलताल मं० द्व रा
यरांगीरंगइंजइं ज० येरनेनावेपात्र म० नरहेदनावेनला जवे वालिपरिपा
रिगात्र गु० द्व इतिअवसररयवादीथी जवे पाबोवलीउराय म० नृत्यसं
लीउजोरहो ज० प्रजापालतिलिवाय म० द्व अस्वजोगवतांस्वर्गनां जवे शी
बांस्त्रीभरतार म० नयलोलागेनिर्पवा ज० वित्तवप्रक्योतिलिचार म० द्व
सपयणांडेजपी जयप मनउपनासंताप म० अवरवरकोइवेपीइं
म० द्व विगरकोधतलोवंसे जवे मेंअविचास्यांकीध
कोठिनकरदीध म० जवे एधिगाजईइलम

बापनारे बलगोरषेविश्व ५२ देणे कुष्टीसंगतचीथ्योरे श्रुतनेउंबररेण प्राप्ति
मनविंताघणीरे कविनकरप्रनात्रोग ५२ देणे श्वभलावीतेहनेरे प्राताचलीविदेश
देदुंसधजोवात्रणीरे सहस्रांघणिकलेत्रा ५३ देणे ज्ञानीनेवचनेकरिरे सयलफलीक
ऊत्रास तेहजजंकमलप्रनारे आवेंवीत्रुमयास ५४ देणे राससुनेश्रीपालनारे तेह
नीदसमीठाल विनयकहेंपून्येकरिरे उषथायेविसराल ५५ देणे हहा रूपसंदरीश्रव
णेसंगी विमलजमाइवंत्र हरषेहियमंगहगही इणियरिंकरेंप्रसंस ५६ वषतवंतम
अणांसमी नारिनकोसंसार जितोविंजंकुलउदस्यां सतीशिरोमणिसार ५७ वरपति
पून्येपामिनु नरपतिनिरमलवंत्र पुत्रसिंहरथरअनो कृत्रिकुलअवतंस ५८ सया
संदरिरंगइंजइ वात्तफणावीसोइ निजबंधवपुन्यपालनें तेषिणहरवित्तहोई ५९
चउरंगीसिनासजी साथेंसबलपरिवार तेजीउरीअनवावता अवलवेषअसचार
दप रतनजहितफलकेंधणं धस्यांसूरीआपोन होलनगारांगदगमे नेजासुरेनि
त्राण ६२ नोणेजीवरजिहांवेसें तिहांआव्यात्तकाल निजमंदिरपध्णववा पुन्यवं

परि श्लेष्मोतनपाठ तसमिरेवेलापरिरे पद्मोद्वैवमिरदाट धर
धलीगरे चढीपंथसिरमूध तववालकनूष्योथयेरे प्रागंसाकरडध धत्र देव
प्रवेशेतीरांणीकदेरे डधरस्यांवडर जोलहीरुहेंरुकसारे तोलह्यांरुकपू
ध देवे हवेजातांपारगमिलरे इककुडीनाभिज रोगीमिलीयासात्सरे ही
अंकरतामोज धप देव कुडीयेंपूल्यापढारे सयलसुणावावात बलबुंऊडीर
प्रकहेरे आरतिप्रकरेवात धद देवे आबीअहसरणेरहीरे मनिराषोआराम
एकोअहजिवतारे कोरुनलहेंडमनाम धप देवे वेसरआपविंसवारे टं
कीसघलंअंग बालकराषीसोदमारे वेवीथइषमंग धप देव एहवेआ
व्यासोऊतारे वयरीनाअसवार कोरुस्वीदीवीइहारे पूवेंवरीवार धले देवे
देइहांआयुंनथारे ऊतप्रऊंवेआल ववननमानोअहत्तएरे नयणे
जेजेस्येतोलागस्येरे अंगेरोणअसाध नाघावाहत २

बालद्वारे गह्वरकरेद्रमगृह ३३ देण प्रतिसागरनेमारवारे वलीहणवाश्रीपाल रा
 ज्यलेवाचंघातणेरे उष्टययोउजमाल ३३ देण किमहिकमंत्रांसरेलहारे तेवयरी
 नीवात राणीनेत्रावीकहेरे नासोलेद्रात ३३ देण जोजास्योतोजीवस्यारे सु
 तजीवाप्रणकाज कुंयरजोक्तसल्योहोस्यद्रे शोवलीकरस्योराज ३५ देण रा
 णीनावीएकलीरे पुत्रवटावीकेदि उवटउजातीयद्वारे विसमाजिहांबद्रंवेदि
 ३६ देण कांसजमोक्तकांषरारे वाषरभाषरषोह फणिधरमणिधरजिहांकिरेरे
 अजगरउंदरगौह ३७ देणे उजदिअबलारद्वारे रंयणीघोरअंधार चरणो
 ध्वेकांकरारे जरेलोहीधर ३८ देणे घूघूघूहदकरेरे वानरपादिंहीक बलह
 जपरवत्तथीयद्रे नदीनीकरणानीक धरे देणे बलीउंबिंजंकंआउपुरे सत्यसी
 लसंधात्त वषत्तवलीकुंयरवद्रे तिणेनकरंकोईघात्त धर देणे स्थणहेंदेनेही

त्राटरे आवेधणां वक्षामणारे शिणघासांघरहाटरे १५ जू० राजामन्त्रउलटघणे
रे दानदिंद्रलविकोमिरे वयरीपणिसत्तोपीयारे बदीपानांबोमिरे १६ जू० धवल
मालदिंद्रसंदरीरे वाजेढोलनिसांणारे नाटिकहोद्रंनवनवारे महोत्सवत्रधिकमं
नाणारे १७ जू० नातिसजनसज्जुंतस्यारे भोजनपटरसपाकरे पारनदीपक
वाननोरे सालसरहाघृत्तशोकरे १८ जू० नूपणत्र्यवरप्रदिराप्रणीरे श्रीफला
ऊरुमत्तंबोलेरे केसरतिलकवलीढांटणारे चदनचपारगरोगलेरे १९ जू०
राजरमणीअम्हपालस्येरे धूनेंलह्योएवालरे सजननूआमिलतिदबुंरे नापठ
वंश्रीपालरे २० जू० रासरुमोश्रीपालनोरे तेहननौप्रीढालरे विनयकहेंश्रीता
घरेरे होष्टीमंगलपालरे २१ जू० ह्हा पांचवरसनोजवधयो तेऊंयरश्रीपाल ।
तापश्लरोमिकरी पितापुत्रुलोकाज २२ सिरकूटद्रंपीटद्रंहीद्रं रुद्रंसकल
परिवार साभित्तंमायाज्ञजी कृष्णकरस्येअप्रसार २३ गयाविदेशांवाजमेवाल्ह

कोइकंवार इणवाटइं वअजावीया नमिलेंबीजीवार २४ हेजेहसीबोलावत २
जेषिणमांकेइवार नजरनमंइइंतेसजन कूटेंनहीयागप्रार २५ नेहनआ
एयोमाहरो पुत्रनथाप्योयाट एवनीउत्तावलिकरी स्फंवाल्याइणिवाट २६ रो
क्षिहीयमंफाटते सकलसबाहोकाज प्रतिसागरमंत्रीतिसइं इमसमजावेंआ
यं २७ हवेंहियमुंकातुंकरी सबलसंबाहोकाज पुत्रउहारीनांनमो रोतांनर
हंराज २८ कमलाकहेंमंत्रीप्रतिहवेंउमेआधार राज्यदेइश्रीपालनइं सफा
लकरोअधिकार २९ दाल रामास्तु जगतगुरुहीरजीरे एदेशी मृत्तकार
जंकरीरायनांरे सकलनिवारीशोक प्रतिसागरमंत्रीसरेरे थिरकीधोसविला
क ३० देषोगतिदैवनीरे देवकरेंतेहोय ऊंणइंचालेंनहीरे आंकणी राजव
वीश्रीपालनेरे वत्तवीतसआणि राजकाजसविवालवइंरे मंत्रीव ज्जुबुधि
नीयाण ३१ देष इणिअवसरिश्रीपालनोरे पीतरीउंमतिमूढः परि कससघजो

रूपपलायने जनुजनु अक्ष १५ जेसहजसरुचितागविना देयेते अतुनवयो
 गरे एणीवतीकरंदरशीतदोइ कंदेककदचोइष्टसंयोगारे जनुजनु १६ त
 सहृष्टिसरागविलोकतो विधेविधेइतिजवाप्रतरुपर दाषइतेकुमरीरुंवल
 ही परापरीपरंभकरीदूयरे जनुजनु १७ सांचेतेईनटनागरांरणी बाजीव
 जीपुतजेमरे प्रतराजीतोकाजीरुंकरे आजीवीतएहसंभेपरे जनुजनु १८
 हवेवर्णवीइजेनृपधते पतीहारकरेगुणयोधरे ततहनिकुमरीमंदावे वयस
 पदेशनादाधरे जनुजनु १९ वरागचतांतसरुमनयेजे हिलतांतेहनुसांपरे
 पतीहारीथाकीछुमारीने सातीरमेअतिअनीरांमरे जनुजनु २० तेमधकर
 अज्वीतसेलहा दधिमकसाकरदूधरे वणीजेहनुं प्रतजीहांवेधीलु तेमधकरत
 बिजांदाधरे जनुजनु २१ इणअवसरअंतनीधतजी मुयेअवतरीदारनादेवे
 रे कंदेगुणगारदूकजो चातुरभेत्तोवाप्रतवरीततमेवर जनुजनु २२ तेसं
 एणीवस्तितेकुमरी दाभेतीजअतिहोइकुंरुपरं तेदेयीनीखिंभेइकुंवजनं त
 वरुत्तारंगणभूयरे जनुजनु २३ गुणअवगुणकगधनवीतदे वरेकुंवजत्य
 जीवरभूयरे वणकंन्यारत्नतनुकुंवजनं उकरदेसोवरधरे जनुजनु २४

६


४

तेहतांकाजससांबल्यावांनेर जतुजतुंअ० १३ इणीअवसरेंनरय
तीकुंयरि वरअंवरशिवीकारुठरे जाणेंचमकंतीवीजली गिरी
वपरेंइंजलधरगठरे जतुजतुंअ० १४ भुगताफलदारेंसोसती
वरभाजाकरमांहेलेइरें भुजमंनयआविकुयरेने सहसाकू



ॐ नक्तं नक्तमनांमप्रापणंजा नविकंर यापतपांगंर उतरनदीश्रितिगिरायनती
 ॐ अरमयलफंगजागंर ६६ ॐ देव्याअतंनोइगियवमंरजी हूनगयगनंया
 नंर नुंचेवदंनंक्तइतवसरुजी तऊगपगतीर्यातिर ६७ ॐ विद्यातारगफुमीया
 वीयाजी दवघणातममाथूर तइगनारंजिनवदीआजी श्रुंग्याश्रीजगताशंर ६८
 देवरचितवरआमंनजी नक्तातिहोमुनिरायंर दिइमंकरधुनिंदमनाजी नविकुआ
 वगफुवदायंर ६९ ॐ नवपदमदिमातिलोवरणंवजी सत्वोनविकामिहवकर ७
 दपरनंवलदीइंरदश्रीजी लीनानदिरअधकर ७० ॐ इयंदाहगमविनपममजी वणि
 स्वामिंरुद्विरमानंर तनवपद आराधनाजी तिमंरुअरश्रीपानंर ७१ ॐ प्रममयतप्र
 नपरपदाजी तऊंगऊअरश्रीपानंर फनिवरनवकरश्रीकतंजी तदनुचरीअरमानंर
 ७२ ॐ तंउंप्रप्रम्युहाआर्वायाजी उधाध्यांचेत्यउवारंर तदरुणीननपदरवीनंती
 दग्यासविपरिवारंर ७३ ॐ इमकलीनफनिवरननपत्याजि गयगमारगजजाअर

लक्षण ७३ रागकैदारी शम्भुदेवकं वाग्ध्वोयाम्भिरहोषी एतन्नी मारगभन
मुखता



कपूरहोइंअसिजजलोरे सुदशी मनमंदिरदीयकजिस्पो दीपेजाकेजमाल हीइं
 सवेरे अंगेअज्ञानअनेक धध पिताजीमकरेफूतगुंमान एरुद्विअधिरनिदानि
 जेहवुंजलधिनुधानपीताजी म० सुषडुषसङ्कइंअनुत्तरे केवलकर्मयसाय
 अधिकननेवुंजेहमांरे कीधुंकोणनजाए यय पीठे राजाकोयंकलकलोरे सांनलत
 वाल्हीपणिवयरणथइरे कीधोवचनविद्यांतरे यद् बेदित्तलिरनणीवुंअ
 तेलोपिमुफलाजरे वें विणसाधुनिजकाजरे पोसीनेयोढीकरिरे नोजनरु
 रयएहीनेलेहीक्तीरे नोगनलानरयुरे य० वें पाठयटंबरपहिरणरे य
 वेंयाय जगमांसकीजीजीकरेरे एसविभुजयसायरे यएतत्वविद्यातो रांतजी
 मत्तआणामनरोस कर्मभुमकुलनुयनारे मेकिहांजोयात्तोस ६० पीठे ल
 मुंधीमनेरे नवशकरसांनिवेद तसविकर्मयसाउलेरे एअवधारेनेद ६२ यिठे ज्योह
 द्वादनुंमनेयणारे कर्मनियरिंकंत तेअमनेयरणावसुंरे कर्मआणैकंतरे ६२
 वें मानहणुंजुनेयणीइरे माहसंसनासतथ्य फलदेवाहुंएहनेरे सकलसनायरत
 ६३ वें संखीइंस्सुसीषवरिरे अध्यायकअज्ञान सजनलोकलाजिसहरे यदेधीए
 अयमांनरे वें ६४ जगल्लोकनिंदेसुंरे नएएहनुधूलि उंजेवात्तनिवातम

२२५ श्रीरवारीमनवचनकाय २२६ इकध्यांनसं होला २२७ इक
 ध्यांनसं तन्नयतत्यपरिचित्तप्रतीतसग्यांनसं होला २२८ अजातस
 ग्यांनसं ८ तन्नमिणसोहमवाग्निश्रुवरआविद्यो होला २२९ स्वरव
 आविद्यो विमलेसरमणिदारमनोरथहरलावीओ होला २३० मनो
 रत्नविद्यो थइष्टांनसुप्तसनुकुंयरकंठंठवे होला २३१ कुंयारकंठंठ
 तेदूतणकरजोनीमहिमावरणवं होला २३२ महिमावरणवे ए जेहवु
 वंठेस्यंतथाईततमीणे होला २३३ थाइततमिणे ततमिणवंतीतवांमी
 इगयणांमीणे होला २३४ जाइंगयणांमीणे आवेइवीणअस्यासकला
 चिंतघरे होला २३५ विमलाविमप्रवीकारतेसंयलासंहरे होला २३६ संय
 लासंहरे १० सिद्धचक्रनोसेदकहंवेवता होला २३७ हंवेवता केव
 रीआध्रंमएहनेसेवता होला २३८ एहनेइसेवतां सीद्धचक्रनिनक्रियणिमत
 धारीइ होला २३९ धणीजनधरिइं फंकनेइकोइकंमपमइंसेनास्थि होला २४०
 कामयमंइंसेनारीइ २१ एतकदिनेइतेसंरनिजथांनिकंगयो होला २४१ नि
 थांनिकंगयो कुयरणोहोसेजनिचितोमनथयो होला २४२ निधिताम

होला जगजस्य परं
 ततिसें इमनचेतवे होला
 ल तिसें इमनचेतवे कुम
 लनय रमकार जइवे सं
 हवे होला जइवे सं ह
 वे र नय एतु घा फि जां म
 विलोके आगले होला ल
 विलोके आगले हो देभे न
 नो आधनय रनि भागलि
 होला ल नय रनि भागलि
 दीवो तिहांद रवार ते विण
 वजावता होला ल विण
 वजावता हो रज कुव र
 नारूप कला गुं गावतो हो
 ला ल कला गुं गावतो





५ गात्र

१०

११

१२

१३


१४

द्वार

१५

क

उपकर्ण





पीठगात्र

४

वीथी

१४



कर्ण

द्वार

१८

उपकर्ण

पश्चिम